



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 22 ] नई दिल्ली, अक्तूबर 5—अक्तूबर 11, 2003, शनिवार/आश्विन 13—आश्विन 19, 1925  
No. 22] NEW DELHI, OCT. 5—OCT. 11, 2003, SATURDAY/ASVINA 13,—ASVINA 19, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

( रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग )

( क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय )

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2003

का.नि.आ. 140.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय (आशुलिपिक) पद भर्ती नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय (आशुलिपिक) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, (आशुलिपिक) पद भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची में :—  
(i) आशुलिपिक श्रेणी-III के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 में स्तंभ 11 के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—  
“सीधी भर्ती द्वारा”

[ फा. सं. ए/87255/आर.आर./स्टेनो/डी.जी.क्यू. ए./प्रशा.-10/1078/डी. (क्यू.ए.) ]

एस. एन. त्रिपाठी, उप सचिव

पाद टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में का. नि. आ. 222 तारीख 21 अगस्त, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF DEFENCE****(Department of Defence Production and Supplies)****(DIRECTORATE GENERAL OF QUALITY ASSURANCE)**

New Delhi, the 8th September, 2003

**S.R.O. 140.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Defence Production and Supplies, Director General Quality Assurance (Stenographers) posts Recruitment Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Defence Production and Supplies, Directorate General Quality Assurance (Stenographers) posts Recruitment (Amendment) Rules, 2003.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Defence Production and Supplies, Director General of Quality Assurance, (Stenographers) Posts Recruitment Rules, 2000 :—

(i) at serial number 2 relating to the post of Stenographer Grade-III under column 11, for the entry, the following shall be substituted, namely :—

“Direct Recruitment”.

[F. No. A/87255/RR/Steno/DGQA/Adm.-10/1078/D(QA)]

S. N. TRIPATHI, Dy. Secy.

**Foot Note :—** The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.R.O. 222 dated 21st August, 2000.

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2003

**का.नि.आ. 141.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह “ग” (रेखांकन) पद भर्ती नियम, 1999 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह “ग” (रेखांकन) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह “ग” (रेखांकन) पद भर्ती नियम, 1999 की अनुसूची में नक्शानवीस श्रेणी III के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ 8 के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी अर्थात् :—

(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य,

(ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्था या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से नक्शानवीस में दो वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या समतुल्य।

**वांछनीय :—**सुसंगत क्षेत्र में नक्शानवीस के रूप में एक वर्ष का अनुभव।

[फा०सं० ए/86320/आर आर/डी मैन/डीजीक्यूए/प्रशा.-10/1835/03/रक्षा (गु. आ.)]

एस०एन० त्रिपाठी, उप सचिव

**टिप्पण :—**मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.नि.आ./176, तारीख 20 सितंबर 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए।

New Delhi, the 3rd September, 2003

**S.R.O. 141.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Defence Production and Supplies, Director General of Quality Assurance Group ‘C’ (Drawing) posts Recruitment Rules, 1999, namely :—

1. (1) These rules may be called the the Department of Defence Production and Supplies, Directorate General Quality Assurance Group ‘C’ (Drawing) posts Recruitment (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Defence Production and Supplies, Director General Quality Assurance Group 'C' (Drawing) Posts Recruitment Rules, 1999, against serial No. 4 relating to the post of Draughtsman Grade III, under column (8) for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

- “(a) Matriculation or equivalent from a recognized Board/University;
- (b) Two year Diploma/Certificate in Draughtsmanship from Industrial Training Institute or equivalent from a recognized Institution.

**Desirable.** One year experience as Draughtsman in relevant field”

[F.No. A/86320/RR/D'Man/DGQA/Adm.-10/1835/03/D(QA)]

S.N. TRIPATHI, Dy. Secy.

**Note :—**The principal rules were published in the Gazette of India vide number SRO 176, dated 20 September, 1999..

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2003

**का.नि.आ. 142.**—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान् द्वारा कर्नल ए. एस. चितको का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, अलमोड़ा में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[ फा. सं. 19/44/अलमोड़ा/सी/डीई/2001/3527/डी (क्यू एण्ड सी) ]

डी० आर० मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 2003

**S.R.O. 142.**—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Almora by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of resignation of Col. A. S. Chitchto.

[F. No. 19/44/Almora/C/DE/2001/3527/D (Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2003

**का.नि.आ. 143.**—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, अलमोड़ा ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नल राजू जॉर्ज को छावनी बोर्ड, अलमोड़ा का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल ए. एस. चितको के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[ फा. सं. 19/44/अलमोड़ा/सी/डीई/2001/3527/डी (क्यू एण्ड सी) ]

डी० आर० मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 2003

**S.R.O. 143.**—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. Raju George has been nominated as a member of the Cantonment Board, Almora by the Station Commander, Almora in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-section (3) of Section 13 of that Act vice Col. A.S. Chitchto whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/44/Almora/C/DE/2001/3527/D (Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2003

**का.नि.आ. 144.**—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान् द्वारा ले. कर्नल वी.के. मिश्रा का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, चकराता में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/43/चकराता/सी/डीई/2001/3526/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी० आर० मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 2003

**S.R.O. 144.**—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Chakrata by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of resignation of Lt. Col. V. K. Mishra.

[F. No. 19/43/Chakrata/C/DE/2001/3526/D (Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2003

**का.नि.आ. 145.**—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, चकराता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ले. कर्नल ए. जसवाल को छावनी बोर्ड, चकराता का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन ले. कर्नल वी.के. मिश्रा के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/43/चकराता/सी/डीई/2001/3526/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 2003

**S.R.O. 145.**—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Lt. Col. A. Jaiswal has been nominated as a member of the Cantonment Board, Chakrata by the Station Commander, Chakrata in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-section (3) of Section 13 of that Act vice Lt. Col. V. K. Mishra whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/43/Chakrata/C/DE/2001/3526/D (Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2003

**का.नि.आ. 146.**—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान् द्वारा कर्नल एस.सी. गुप्ता का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, नैनीताल में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है

[फा. सं. 19/08/नैनीताल/सी/डीई/2001/3523/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 2003

**S.R.O. 146.**—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the cantonment Board, Nainital by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of resignation of Col. S. C. Gupta.

[F. No. 19/08/Nainital/C/DE/2001/3523/D (Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2003

**का.नि.आ. 147.**—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, नैनीताल ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नल जे. के. खान को छावनी बोर्ड, नैनीताल का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल एस.सी. गुप्ता के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/08/नैनीताल/सी/डीई/2001/3523/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 2003

**S.R.O. 147.**—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. J. K. Khan has been nominated as a member of the Cantonment Board, Nainital by the Station Commander, Nainital in exercise of the powers conferred under clause (c) of Sub-section (3) of Section 13 of that Act vice Col. S.C. Gupta whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/08/Nainital/C/DE/2001/3523/D (Q&amp;C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2003

**का.नि.आ. 148.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय वायुसेना, वरिष्ठ भंडार अधीक्षक, भंडार अधीक्षक, भंडारी और सहायक भंडारी (सिविलियन) भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वायुसेना वरिष्ठ भंडार अधीक्षक, भंडार अधीक्षक, भंडारी और सहायक भंडारी (सिविलियन) भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय वायुसेना वरिष्ठ भंडार अधीक्षक, भंडार अधीक्षक, भंडारी और सहायक भंडारी (सिविलियन) भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में:-

(क) भंडार अधीक्षक के पद से संबंधित स्तंभ 12 में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्रोन्नति”:- ऐसा भंडारी जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1:- पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख अर्थात् 7 अगस्त, 2001 को नियमित आधार पर पोषक श्रेणी पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा वही अर्थात् 5 वर्ष बनी रहेगी।

टिप्पण 2:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने सेवा अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(ख) भंडारी के पद से संबंधित स्तंभ 12 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्रोन्नति”:- ऐसा सहायक भंडारी जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1:- पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख अर्थात् 7 अगस्त, 2001 को नियमित आधार पद पोषक श्रेणी पर धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा वही अर्थात् पांच वर्ष बनी रहेगी।

**टिप्पण 2 :—** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**आमेलन :—** सदृश और उच्चतर पदों को धारण किए हुए ऐसे व्यक्तियों जिन्हें रक्षा सेवाओं के प्राक्कलनों से संदाय किया जाता है और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में यथाविहित शैक्षिक अर्हता है।

[फा. सं. वा से मु/23046/एस.के.एस./आर.आर./पी सी-3/560/रक्षा(नि.)]

वी.ए. चावड़ा, अवर सचिव

**टिप्पण—**मूल नियम भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 4, सं. का.नि.आ. 135, तारीख 7 अगस्त, 2001 में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th September, 2003

**S.R.O. 148.—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Air Force Senior Store Superintendent, Store Superintendent, Storekeeper and Assistant Storekeeper (Civilian) Recruitment Rules, 2001, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Air Force Senior Store Superintendent, Store Superintendent, Storekeeper and Assistant Storekeeper (Civilian) Recruitment (Amendment) Rules, 2003.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Air Force Senior Store Superintendent, Store Superintendent, Storekeeper and Assistant Storekeeper (Civilian), Recruitment Rules, 2001, in the Schedules :—

(a) In column 12, for the entries relating to the post of Store Superintendent, the following shall be substituted, namely :—

**“Promotion : Storekeeper with Eight years regular service in the grade.**

**Note 1:—** The eligibility service shall continue to be the same i.e. five years for persons holding feeder grade post on regular basis on the date of notification of the revised rules i.e 07 Aug. 2001.

**Note 2 :—** Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.”

(b) In column 12, for the entries relating to the post of storekeeper the following shall be substituted, namely :—

**“Promotion : Assistant Storekeeper with Eight years regular service in the grade.**

**Note 1:—** The eligibility service shall continue to be the same i.e. five years for persons holding feeder grade post on regular basis on the date of notification of the revised rules i.e. 07 Aug. 2001.

**Note 2 :—** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

**Absorption:** Persons holding analogous or higher posts who are paid from the Defence Services Estimates and having the requisite educational qualification as prescribed for Direct Recruits in Column 8”.

[F. No. Air HQ/23046/SKS/RR/PC-3/560/D(Apptts)]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

**Note :—**The Principal Rules were published in Part II, Section 4 of the Gazette of India vide No. S.R.O. 135 dated 7th August, 2001.

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2003

का.नि.आ. 149.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (आचार्य) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शैक्षणिक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, (आचार्य) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है,

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

1. पद का नाम	:	आचार्य
2. पदों की संख्या	:	9* (2003)
		* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह - 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय
4. वेतनमान	:	16,400-450-20, 900-500-22,400 रु. धन राष्ट्रीय अकादमी विशेष भत्ता 150 रु. प्रतिमाह
5. चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन	:	लागू नहीं होता
* अथवा अचयन पद		
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	50 वर्ष से अधिक नहीं

टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 50 वर्ष तक शिथिलनीय।

**टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं :  
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :

हां

**आवश्यक :**

स्नातकोत्तर स्तर पर 10 वर्षों के अध्यापन अनुभव और/या अनुसंधान/स्नातकोत्तर अनुसंधान मार्गदर्शन अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी०एच०डी० या समतुल्य।

स्नातक पूर्व स्तर पर शिक्षण/अनुसंधान का 15 वर्ष का अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी०एच०डी० उपाधि/डिग्री या समतुल्य।

**वांछनीय :** (क) अंग्रेजी भाषा में दक्षता क्योंकि यह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शिक्षण माध्यम है।

(ख) श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायता/कम्प्यूटर को चलाने का अनुभव

**टिप्पणी 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

**टिप्पण 3 :** संघ लोक सेवा आयोग रिक्त पद का विज्ञापन देते समय विषय की सुस्पष्ट शाखा का उल्लेख करेगा।

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं :  
10. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :  
11. भर्ती की पद्धति — भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :  
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा :  
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना :

लागू नहीं होता

एक वर्ष

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण) :**

- (1) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय — अध्यक्ष  
(2) अपर महानिदेशक, सैनिक प्रशिक्षण, सेना मुख्यालय — सदस्य



14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।  
आयोग से परामर्श किया जाएगा

[फा. सं. ए/46153/आर आर/प्रोफ/एनडीए/जी एस/एम टी-7/610/D(Apptts.)]

वी. ए. चावड़ा, अवर सचिव

पाद टिप्पण :— विद्यमान नियम सं. का०नि०आ० 70, तारीख 24 मार्च, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का०नि०आ० 298, तारीख 3 अक्टूबर, 1989 द्वारा उनका संशोधन किया गया।

New Delhi, the 25th September, 2003

**S.R.O. 149.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Defence Academy (Professors) Recruitment Rules, 1988 in so far as they relate to the posts of Professor except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules relating to the method of recruitment to the academic posts in the National Defence Academy namely:—

1. **Short Title and Commencement :—** (1) These rules may be called the National Defence Academy (Professors) Recruitment Rules 2003.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of Posts, Classification and Scale of Pay :—** The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of Recruitment, Age Limit, Qualification etc :—** The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.
4. **Disqualification :—** No person,
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax :—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving :—** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

1. Name of the post	: Professor
2. Number of post	: 9* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	: General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial
4. Scale of pay	: Rs. 16400-450-20900-500-22400 plus Rs. 150 pm, 'NDA Special Allowance'

5. Whether selection or non-selection post : Not applicable
6. Age limit for direct recruits : Not exceeding 50 years.  
**Note 1:** Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  
**Note 2 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
7. Whether benefit of added years of service admissible : Yes
8. Educational and other qualifications required for direct recruits : **Essential :**  
 Ph. D degree from a recognised University or equivalent with 10 year's teaching experience at Post Graduate Degree level and/or Research/Post-Graduate Research guidance Experience. Or  
 Ph. D Degree from a recognised university or equivalent with 15 years of teaching/research experience at undergraduate level.  
**Desirable**  
 (a) Proficiency in English language as it the medium of instruction at the NDA.  
 (b) Experience in handlings of Audio-Visual teaching Aids/Computers.  
**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.  
**Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.  
**Note 3 :** Exact discipline of subject shall be indicated at the time of advertisement of the post by the Union Public Service Commission.
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : One year.
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods. : Direct recruitment
12. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made. : Not applicable

13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : **Group 'A' Departmental Promotion Committee (confirmation) :—**  
 1. Addl Secretary, Ministry of Defence —Chairman  
 2. Addl Director General, Military Training, Army Headquarters. —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment : Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F. No. A/46153/RR/Prof/NDA/GS/MT-7/610/D(Apptts.)]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

**Foot Note :—**The existing Recruitment Rules, 1988 were published vide S.R.O. 70 dated 24th March, 1988 and amended vide S.R.O. 298 dated 3rd October 1989.

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2003

का०नि०आ० 150.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय वायु सेना सहायक भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वायुसेना सहायक भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 है।  
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय वायु सेना सहायक भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

**अनुसूची**

1. पद का नाम	:	सहायक
2. पदों की संख्या	:	248 * (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय
4. वेतनमान	:	5000-150-8000 रु.
5. चयन अथवा अचयन पद	:	अचयन
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	लागू नहीं होता
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	लागू नहीं होता
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	लागू नहीं होता
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	:	लागू नहीं होता
10. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं होता
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	प्रोन्नति द्वारा

12. प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा : प्रोन्नति :— ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा नियमित सेवा की है ।  
टिप्पण 1 :— अर्हक सेवा समान रूप से लागू रहेगी अर्थात् पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख अर्थात् 22 अगस्त, 2001 को नियमित आधार पर पोषक श्रेणी पद धारण किए हुए व्यक्तियों के लिए पाँच वर्ष रहेगी  
टिप्पण 2 :— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति—  
1. निदेशक, (कार्मिक सिविलियन), वायु सेना मुख्यालय — अध्यक्ष  
2. विशेषज्ञ निदेशालय का प्रतिनिधि जो स्क्वाड्रन लीडर या समतुल्य रैंक से नीचे का न हो, वायु सेना मुख्यालय — सदस्य  
3. सहायक निदेशक कार्मिक (सिविलियन) (विभागीय प्रोन्नति समिति अनुभाग), वायु सेना मुख्यालय — सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा : लागू नहीं होता  
आयोग से परामर्श किया जाएगा

[फा. सं. वायु सेना मुख्यालय/23046/सहायक/आर आर/पी सी-3/448/रक्षा(नि.)]

वी. ए. चावड़ा, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग 2 खंड 4 में रक्षा मंत्रालय सा.का.नि. सं. 222 तारीख 22 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किए गए।

New Delhi, the 18th September, 2003

✓ S.R.O. 150.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Air Force Assistant Recruitment Rules, 2001 namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Air Force Assistant Recruitment (Amendment) Rules 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Air Force Assistant Recruitment Rules, 2001 for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

#### SCHEDULE

1. Name of post	: Assistant
2. Number of post	: 248* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	: General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4. Scale of pay	: Rs. 5,000-150-8,000

5. Whether selection Post or non-selection : Non-Selection post
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil services (Pension) Rules, 1972 : Not applicable
7. Age limit for direct recruits : Not applicable
8. Educational and other qualifications required for direct recruits : Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : Not applicable
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods. : By promotion
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made. : **Promotion :**  
Upper Division Clerk with eight year's regular service in the grade.  
**Note 1 :** The eligibility service shall continue to be the same i.e. five years for persons holding feeder grade post on regular basis on the date of notification of the revised rules i.e. 22 August 2001.  
**Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : **Group 'C' Departmental Promotion Committee**  
1. Director, (Personnel Civilian,) Air headquarters. —Chairman  
2. Representative of specialist Directorate not below the rank of Squadron Leader or equivalent, Air Headquarters. —Member  
3. Assistant Director Personnel (Civilian) (Departmental Promotion Committee Section), Air Headquarters. —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment : Not applicable

// [F. No. Air HQ/23046/Asstt/RR/PC-3/448(Apptts)]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

**Note :—**The Principal Rules were published in Part II, Section IV of the Gazette of India, Min of Def. No. SRO 222 dated 22nd August, 2001.